



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1937 (श0)
(सं0 पटना 711) पटना, मंगलवार, 30 जून 2015

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना
9 मार्च 2015

सं0 प्र02वि0 1- 64/2012-1960—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पौंच वर्ष अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता है :-

क्र0सं0	नाम एवं पता	जिला उपभोक्ता फोरम का नाम	अभ्युक्ति
01	02	03	04
01	श्री बलराम सिंह, पिता - श्री शिव कुमार सिंह, अभिषेक सदन, 30 चक हरिहर भान, नयानगर, झॉसी, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश।	भोजपुर	अप्रैल 2015 से रिक्त
02	श्री अभय कुमार बरियाल, पिता - स्व0 बेनी माधव प्रसाद, मथुरा कुटीर, पार नवादा, देवी स्थान, पो0-थाना-जिला-नवादा। पिन - 805110	अरवल	15.04.2015 से रिक्त

2. स्तम्भ 04 में उल्लिखित रिक्त के तिथि से एक माह के अंदर योगदान नहीं करने पर अधिसूचना विलोपित समझी जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अध्यक्षों का वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।

4. नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग/निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।
5. योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 711-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>